

# हिंदुस्तान पावर फुटबाल में लक्ष्मी क्लब, खो खो में कल्याणपुर ने जीता कप

प्रेषित समय :19:42:26 PM / Fri, Dec 22nd, 2017



[Tweet](#)

**अनूपपुर.** सामुदायिक विकास को समर्पित हिंदुस्तान पावर सीएसआर का संगम समारोह यादगार प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया. सीएसआर माह के तहत हुए जिला फुटबाल टूर्नामेंट में लक्ष्मी स्पोर्टिंग क्लब ने महामाया स्पोर्टिंग क्लब को ५-१ से शिकस्त दी, वहीं महिला खो खो मैच में कल्याणपुर टीम ने लगातार तीसरी बार बाजी मारी. सबसे यादगार पल था कन्या फुटबालरों का मैदान पर दमखम दिखाने के लिए उतरना. समारोह के मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के उप-निदेशक आर.आर.सिंह ने कहा, हिंदुस्तान पावर सीएसआर इस क्षेत्र में प्रतिभा निखार और समावेशी विकास के लिए प्रेरक कार्य कर रहा है. ऐसे समारोह क्षेत्र में प्रगति की उम्मीद बढ़ाते हैं.

इस मौके पर विजेताओं को पदक, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर पुरस्कृत किया गया. जैतहरी के एसडीएम बीडी सिंह, तहसीलदार रमेश कोल, सीएमएचओ आर.के.श्रीवास्तव, डीपीसी डीएस राव, सीडीपीओ सतीश कुमार जैन समेत कई अधिकारी उपस्थित थे. जैतहरी नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश अग्रवाल समेत स्थानीय नगरिकों व शिक्षकों ने इसमें शिरकत की. कंपनी के सलाहकार, थर्मल बिजनेस, वीके रेड्डी और उपस्थित अधिकारियों ने प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया. उत्कृष्ट विद्यालय स्टेडियम में हुए फुटबाल टूर्नामेंट में १६ टीमों ने भाग लिया, वहीं महिला खो खो प्रतियोगिता में १० टीमों ने शिरकत की.

फुटबाल विजेता टीम को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई, उप-विजेता को पुरस्कार मिला. जिले की ३० स्कूलों के करीब ४५० विद्यार्थियों ने भाग लिया. टकुहली में हुई किसान गोष्ठी में करीब १००० किसानों ने भाग लिया. कामयाबी गढ़ने वाले किसानों को कृषि यंत्र देकर सम्मानित किया गया. चांदपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर से ४६८ मरीज लाभान्वित हुए. नशाखोरी के दुष्परिणामों पर केंद्रित मूक-नाट्य (माइम) की मार्मिक प्रस्तुति किश गया.